



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2362]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 7, 2012/अग्रहायण 16, 1934

No. 2362]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 7, 2012/AGRAHAYANA 16, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2012

का.आ. 2862(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2908(अ), तारीख 28 दिसम्बर, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 28 दिसम्बर, 2011 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर नगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के 450.650 कि.मी. से 483.687 कि.मी. (इटावा-चकरी सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/छः लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 6 मार्च, 2012 को “दैनिक जागरण” और “अमर उजाला” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची								
उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 2 के 450.650 कि.मी. से 483.687 कि.मी. तक (इटवा-चकरी खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण								
क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	कानपुर नगर	कानपुर नगर	(1) गदनखेडा	47	निजी	सिंचित	0.0510	श्रीमती सरोज अग्रवाल पत्नि गोकुलराम अग्रवाल
				48	निजी	परती	0.0390	रमेश पुत्र बाबूलाल रायपुर परगना अकबरपुर, श्रीमती हर्षा देवी पत्नि ओम प्रकाश नि० 13/278 गोविन्द नगर कानपुर नगर, राकेश बाबू कुशवाहा पुत्र रामनाथ कुशवाहा नि० 38 भाग-4 पनकी गंगागंज कानपुर नगर व श्रीमती संगीता दुबे पुत्री गंगाप्रसाद नि० बिनौर
				49	सरकारी	खलिहान	0.0630	खलिहान
				54	सरकारी	चकमार्ग	0.0030	चकमार्ग
				55	निजी	परती	0.0450	नवीन परती
				65	निजी	परती	0.1036	अरुण कुमार गुप्ता, अभय कुमार गुप्ता पुत्रगण सदन मोहन गुप्ता नि० 784/14 डबल वन साकेत नगर कानपुर नगर व श्रीमती सोनियादेवी पत्नि नरेन्द्र कुमार सिंह नि० ग्राम पेराजोर तह० अकबरपुर जि० कानपुर दे०
				66	सरकारी	चकमार्ग	0.0028	चकमार्ग
				70	निजी	सिंचित	0.0308	राधेश पुत्र रामशरण नि० 104/201 जूही सफेद कालोनी कानपुर व जितेन्द्र पुत्र यू०सी० दीक्षित नि० 104/201 जूही सफेद कालोनी कानपुर
				72	सरकारी	देवस्थान	0.0896	देवस्थान नि० ग्राम
				71	निजी	सिंचित	0.0196	कमलेश सिंह, मकरन्दी सिंह पुत्रगण शहिजादे सिंह नि० ग्राम, श्रीमती उर्मिलादेवी पत्नि स्व० नरेन्द्र सिंह नि० ग्राम सुधाशुक्ला पत्नी अखिलेश कुमार शुक्ला नि० तिगाई तह० अकबरपुर कानपुर दे० राधाकृष्णगुप्ता (एस.एच.यू.एफ.) व प्रदीपकुमार (एस.एच.यू.एफ.) पुत्रगण हरीकृष्णगुप्ता नि० 76/556 कुलीबाजार कानपुर व बचनीसिंह पुत्र किल्लूसिंह नि० ग्राम
				76	सरकारी	चकमार्ग	0.0032	चकमार्ग
				77	निजी	परती	0.1152	आशुतोष गुप्ता पुत्र प्रकाशचन्द्र गुप्ता व श्रीमती वर्षा गुप्ता पत्नी आशुतोष गुप्ता नि० प्रीमियर हाउस 133/150 ट्रान्सपोर्ट नगर कानपुर नगर
				78	निजी	परती	0.0128	शमशेर बहादुर सिंह, शेर बहादुर सिंह, चन्द्र बहादुर सिंह पुत्रगण रामप्रताप सिंह श्रीमती विनय प्रवीणा सिंह पत्नी स्व० तेजबहादुर सिंह शोभित सिंह, अंकित सिंह ना.बा. उम्र 16 वर्ष पुत्रगण राजेन्द्रबहादुर सिंह संरक्षिका श्रीमती विटानदेवी माता व श्रीमती विटानदेवी पत्नी स्व० राजेन्द्रबहादुर सिंह नि० 116/41 रावतपुर कानपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				79	सरकारी	नवीन परती	0.0320	नवीन परती
				221	निजी	सिंचित	0.0144	छेदी, लालाराम पुत्रगण रमई नि० ग्राम श्रीपाल, हेमराज पुत्रगण शिवबालक व श्रीमती सुशीला देवी पत्नी शिवबालक नि० ग्राम
				80	निजी	परती	0.0176	कृष्ण भरद्वाज पुत्र ईश्वरदास नि० साकेत आश्रमगली-1 शिवलिकऐवन्यूचडीगढ, नरायण सिंह पुत्र विक्रम सिंह नि० ग्राम
				86	निजी	परती	0.0960	कृष्ण भरद्वाज पुत्र ईश्वरदास नि० साकेत आश्रमगली-1 शिवलिकऐवन्यूचडीगढ, नरायण सिंह पुत्र विक्रम सिंह नि० ग्राम, कमलाबाई उर्फ कमला अहूजा पत्नी एल० के० अहूजा, श्रीमती सरोज खूबचन्दानी द्वारा मुख्तारआम एल०के० अहूजा पुत्र किशनचन्द्र अहूजा व श्रीमती पुष्पा सहजवानी पत्नी डा० रमेश सहजवानी नि० 122/731 शास्त्रीनगर कानपुर
				91	निजी	परती	0.0704	सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र मदनसिंह व श्रीमती रामकुमारी पत्नी मदनसिंह नि० 126/1 आई ब्लाक गोविन्द नगर कानपुर
				109	निजी	परती	0.0196	सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र मदनसिंह 126/1 आई ब्लाक गोविन्द नगर कानपुर, सुरेश, रजोल पुत्रगण छोटेलाल, अवधेशकुमार पुत्र जगरूप, श्रीमती कुन्तीदेवी पत्नी जगरूप
				110	सरकारी	सडक	0.0056	सडक
				योग			0.8342	
			(2) पकरी	258	निजी	परती	0.0176	मथुरा पुत्र लाला नि. कानपुर
				259	निजी	सिंचित	0.1120	श्रीमती सीमा पाण्डेय पत्नी रवि पाण्डेय नि० 15/74-75 सिविल लाइन्स कानपुर, नीरजसिंह, विजय बहादुर सिंह पुत्रगण अमरसिंह नि. ग्राम
				260	निजी	परती	0.0160	सुरेन्द्र, वीरेन्द्र पुत्रगण धनीराम नि० कटरा म.बिनौर व अवधेश नारायण पुत्र रामनारायण नि० 117/एच०२/165 पाण्डु नगर कानपुर
				269	निजी	परती	0.0240	रामसेवकसिंह पुत्र बाबूसिंह नि० गदनखेडा, रामचन्द्रसिंह, घनश्यामसिंह, जयचन्द्रसिंह, हरिश्चन्द्र सिंह पुत्रगण रामनारायणसिंह व श्रीमती श्यामादेवी पत्नी रामनारायणसिंह नि० गदनखेडा
				271	निजी	परती	0.1984	हरिओम पुत्र कृष्णकुमार नि० 87/9 सी.आचार्य नगर कानपुर
				277	निजी	परती	0.0144	अमित कुमार पटेल पुत्र राजेन्द्र पटेल नि० 49 फैंकट्टीएरिया फजलगंज कानपुर व श्रीमती सीमा पत्नी छोटे सिंह नि० ग्राम
				278	निजी	परती	0.0144	अमित कुमार पटेल पुत्र राजेन्द्र पटेल नि० 49 फैंकट्टीएरिया फजलगंज कानपुर
				279	निजी	परती	0.0960	रमेश, उमेश पुत्रगण बाबूलाल नि० ग्राम श्रीमती प्रेमलता पत्नी बागमल मलहोत्रा नि० 126/9 ब्लाक एफ गोविन्द नगर कानपुर व शरद अग्रवाल पुत्र कैलाशचन्द्र अग्रवाल नि० 133/185 एम०ब्लाक किदवई नगर कानपुर नगर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				280	निजी	परती	0.0320	श्रीमती मंजू पत्नी कैलाशनाथ नि. भिसार
				178	निजी	परती	0.0600	आर०के० इण्डस्ट्रीजकारपोरेशन द्वारा पार्टनर श्रीमती रामकुमारी पत्नी राजनरायनसिंह चन्देल व श्रीमती विमलेशसिंह पत्नी बलवीरसिंह चन्देल नि० नहोली पो०जिंदौरा तह०अकबरपुर जि० कानपुर दे० व श्रीमती मालती देवी पत्नी श्री लालमन नि० म०न० 58/5 जानकीपुरम कल्यानपुरखुर्द कानपुर नगर
				179	निजी	परती	0.0280	केवलसिंह पुत्र पानसिंह नि०कटरा घनश्याम
				226	निजी	परती	0.0520	सुरेन्द्र कुमारसिंह पुत्र जगदीशसिंह नि० धरमंगदपुर,विष्णु कुमार पुत्र बाबूराम नि० कटरा घनश्याम,रामकुमार पुत्र लक्ष्मीनारायन नि. भिसार माधुरीसिंह पत्नी राजेन्द्र सिंह नि० रायपुर कुकहट,श्रीमती उषा पाण्डेय पत्नी जितेन्द्र कुमार,श्रीमती ममता पाण्डेय पत्नी धर्मेन्द्र कुमार नि० रायपुर कुकहट तह० अकबरपुर,केशवसिंह,राजेन्द्रसिंह,देवेन्द्रसिंह पुत्रगण बाबूसिंह नि० भिसार,सीताराम पुत्र जगन्नाथ नि० पलरा,उदयनरायनसिंह पुत्र शिवनरायनसिंह नि० धनजुआ,तह० अकबरपुर,कानपुर दे०,रामकरनसिंह,राजेन्द्रसिंह पुत्रगण जगरूपसिंह नि० ईश्वरीगंज,रामशंकर पुत्र कृष्णकुमार,श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी स्व० कृष्णकुमार नि० ईश्वरीगंज,उदयभानसिंह पुत्र हरनामसिंह,केवलसिंह पुत्र पानसिंह नि० कटरा घनश्याम व राजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र जगदीशसिंह नि० धरमंगदपुर
				294	निजी	परती	0.0048	रामचन्द्र पुत्र सोहनलाल नि० ग्राम
				293	निजी	परती	0.0090	श्रीमती रामकली पत्नी ओम प्रकाश नि. 86/34 डिप्टी पडाव कानपुर हरदिलास पुत्र राजशम नि. रायपुर व सुखवीरसिंह चन्देल पुत्र स्व० राजनरायनसिंह चन्देल नि० 64/8विजय नगर कानपुर
				291	निजी	परती	0.0120	गिरजाशंकर पुत्र किशोरीलाल नि० कटरा म० विनौर व जंग बहादुरसिंह पुत्र स्व० भगवानसिंह नि० म०न० 45 बर्ग विश्वबैंक कानपुर नगर,श्रीमती अनीतासिंह चौहान पत्नी उदयभानसिंह चौहान नि० कटरा घनश्याम व श्रीमती आशाशुक्ला पत्नी महेशचन्द्र शुक्ला नि० भिसार व श्रीमती शंकरदेवी पत्नी श्रीपालसिंह नि० ग्राम
				283	सरकारी	किसान नगर	0.0090	किसान नगर
				288	सरकारी	चकमार्ग	0.0012	चकमार्ग
				292	सरकारी	नाली	0.0012	नाली
				योग			0.7020	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			(3) सचेंडी	1621	सरकारी	नहर	0.0832	नहरगंगा
				1620	निजी	नवीन परती	0.5224	राजीव ,राकेश व राजकुमार पुत्रगण कृष्णनरायन गर्ग नि. 15/78 सिविल लाईन कानपुर,सत्येन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरेश बहादुर सिंह व श्रीमती कमला पत्नी सुरेश बहादुर सिंह नि. ग्राम नगला गंगा सिंह पोस्ट उझियानी,तह. भरथना जि. इटावा,रजनी कुशवाहा पत्नी श्री योगेश कुमार कुशवाहा नि. भिसार,श्रीमती निर्मला सिंह भदौरिया पत्नी श्री बलवान सिंह भदौरिया नि. भिसार,श्रीमती ओमवती पत्नी रमेशसिंह चन्देल नि. भिसार,श्रीमती मंजूदेवी पत्नी श्री सतीश कुमार कुशवाहा नि.भिसार
				1619	निजी	नवीन परती	0.0780	मे श्रीविहिकिल्स प्रा0 लि0 द्वारा निदेशक अनिल जालान पुत्र के0एल0 जालान नि026 सर्वोदयनगर कानपुर
				1618/2566	निजी	सिंचित	0.0432	विवेकपाल केंगप्राईवेट लि0 द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर विवेकजैन पुत्र पारसदास नि0 128/580 के ब्लाक किदवई नगर कानपुर
				1618	निजी	नवीन परती	0.2132	भगवती फूडस प्रा0लि0 आफिस 305 मंगलम् 24 हेमन्तबसु सारती कोलकाता निदेशक हरीराम अग्रवाल पुत्र भीखमसेन अग्रवाल नि0 96एम ब्लाक ई न्यू डाली पौर कोलकाता,राजीव कुमार पुत्र कृष्णनरायन नि0 15/78 सिविल लाईन शहर कानपुर
				1598	निजी	सिंचित	0.0816	साधना रानी पत्नी विष्णुनरायन गर्ग नि0 15/78 सिविल लाईन शहर कानपुर
				1597	निजी	सिंचित	0.0768	सरितारानी पत्नी विष्णुनरायन गर्ग नि0 15/78 सिविल लाईन
				1595	निजी	सिंचित	0.0144	श्रीमती मंजूरानी पत्नी विष्णुनरायन गर्ग नि. 15/78 सिविल लाईन कानपुर
				1627	सरकारी	नहर	0.0560	नहरगंज
				1626	निजी	सिंचित	0.0336	श्रीमती सुनीतासिंह पत्नी ए.के.सिंह नि.81 डब्लू द्वितीय जूही कानपुर,श्रवणसिंह,श्रवणसिंह पुत्रगण विपिनकुमारसिंह नि0 81डब्लू2 जूही कानपुर,राममान सिंह,शिवभान सिंह , राजेश कुमार आ017व0स0राधा मां पुत्रगण बबू सिंह सतेन्द्र सिंह पुत्र रामप्रसाद सिंह,उदयरजसिंह,शिवसिंह,हिमांशूसिंह पुत्रगण शिवप्रतापसिंह श्रीमती कमलेशसिंह पत्नी शिवप्रतापसिंह नि0 पकरी
				1625	निजी	नवीन परती	0.0476	श्रीमती सुनीतासिंह पत्नी ए.के.सिंह नि.81 डब्लू द्वितीय जूही कानपुर,श्रवणसिंह,श्रवणसिंह पुत्रगण विपिनकुमारसिंह नि0 81डब्लू2 जूही कानपुर,राममान सिंह,शिवभान सिंह , राजेश कुमार आ017व0स0राधा मां पुत्रगण बबू सिंह सतेन्द्र सिंह पुत्र रामप्रसाद सिंह,उदयरजसिंह,शिवसिंह,हिमांशूसिंह पुत्रगण शिवप्रतापसिंह श्रीमती कमलेशसिंह पत्नी शिवप्रतापसिंह नि0 पकरी

6545 65/12-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1634	निजी	सिंचित	0.0560	श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी ए.के.सिंह नि.81 डब्लू द्वितीय जूही कानपुर,श्रवणसिंह,श्रवणसिंह पुत्रगण विपिनकुमारसिंह नि0 31डब्लू 2 जूही कानपुर
				1635	निजी	सिंचित	0.0532	विष्णुचरण,विष्णुशरण,अम्बिकाशरण,अदित्यशरण पुत्रगण बिहारीलाल नि0 ग्राम
				1636	निजी	सिंचित	0.0350	विष्णुचरण,विष्णुशरण,अम्बिकाशरण,अदित्यशरण पुत्रगण बिहारीलाल नि0 ग्राम
				1637	सरकारी	परती	0.0252	नान जेड ए
				1649	सरकारी	चकरोड	0.0784	चकरोड
				1650	निजी	आबादी	0.1162	श्रीमती प्रभा गुप्ता
				1651	सरकारी	चकरोड	0.0028	चकरोड
				1653	निजी	आबादी	0.0364	मेसर्स प्रभा एग्रीटेक द्वारा भागीदार सोमचन्द्र गुप्ता पुत्र गयाप्रसाद गुप्ता नि0 128/594 के0 ब्लाक किदवई नगर कानपुर
				1654	सरकारी	चकरोड	0.0028	चकरोड
				1655	निजी	नवीन परती	0.0196	श्रीमती भगवानदेवी पत्नी छोटेलाल नि0 ग्राम
				1656	निजी	नवीन परती	0.0070	श्रीमती हसमुखी पत्नी दुलारी नि0 ग्राम
				1657	निजी	नवीन परती	0.0112	श्रीमती रामेश्वरी पत्नी जगदम्बा प्रसाद नि0 ग्राम
				1689	निजी	सिंचित	0.0616	विष्णुचरण,विष्णुशरण,अम्बिकाशरण,अदित्यशरण पुत्रगण बिहारीलाल नि0 ग्राम
				1688	निजी	सिंचित	0.0784	अमोल जैन पुत्र आजाद जैन नि0 128 ओ/14बी0एम0 मार्केट गोविन्द नगर कानपुर विशाल जैन पुत्र आजाद जैन नि0125/14ओ0ब्लाक गोविन्द नगर कानपुर
				1695	निजी	सिंचित	0.0336	मुकेशचन्द्र,सुरेशचन्द्र,नरेशचन्द्र,महेशचन्द्र पुत्रगण मिखारीलाल नि0 ग्राम व चेतन कल्या पुत्र सुभाषचन्द्र कल्या नि0 133/241 टांन्सपोर्ट नगर
				1696	निजी	सिंचित	0.0448	बाबूलाल,शान्तन कुमार पुत्रगण भरोसा नि0 ग्राम
				1700	निजी	सिंचित	0.0420	श्रीमतीराजुल जैन पत्नी विनोदकुमार जैन व श्रीमतीमीनू जैन पत्नी वीरेन्द्रकुमार जैन नि0 197एच-1किदवई नगर कानपुर
				1702	निजी	सिंचित/न.प.	0.0182	ओमप्रकाश,विष्णुकुमार,रामजीवन पुत्रगण राजाराम नि0 ग्राम
				1703	निजी	नवीन परती	0.0140	विष्णुकुमार पुत्र राजाराम नि0 ग्राम
				1704	सरकारी	रास्ता	0.0028	रास्ता
				1741	निजी	सिंचित	0.0616	शशांक जायसवाल पुत्र सतीशकुमार व प्रेषित जायसवाल पुत्र राजीवकुमार नि0 80/89 कोपरगंज कानपुर
				1742	निजी	सिंचित	0.0812	राजेन्द्रपाल सिंह पुत्र रंजीतसिंह नि0 ग्राम
				1745	निजी	सिंचित	0.0560	राधारमनसिंह,रामप्रकाशसिंह,रवीन्द्रसिंह पुत्रगण रजपालसिंह नि0 ग्राम
				1746	सरकारी	चकरोड	0.0028	चकरोड

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1747	निजी	नवीन परती	0.1036	धर्मेन्द्रकुमार शर्मा पुत्र राजकुमार शर्मा नि० रहतरी पो० सरांव तह० भरथना जि० इटावा
				367	निजी	परती	0.0240	मेसर्स ओरियन्ट आर्चर्ड प्रा.लि. डायरेक्टर अतुल कनोडिया पुत्र मनोहर कनोडिया नि. 506 सिटी सेन्टर 63/2 दि माल कानपुर
				375	निजी	परती	0.0366	मेसर्स ओरियन्ट आर्चर्ड प्रा.लि. डायरेक्टर अतुल कनोडिया पुत्र मनोहर कनोडिया नि. 506 सिटी सेन्टर 63/2 दि माल कानपुर
				376	निजी	परती	0.0456	मेसर्स ओरियन्ट आर्चर्ड प्रा.लि. डायरेक्टर मनोज डालमिया रजिस्टर्ड आफिस 506सिटी सेन्टर दि माल कानपुर
				671	निजी	परती	0.0012	
				672	निजी	परती	0.0108	श्रीमतीसंगीता केसवानी पत्नी कैलाशकुमार केसवानी नि० 2ए/ 193 आजादनगर कानपुर, हरीशकुमार मतरेजा पुत्र धनराज मतरेजा, मोहित कुमार मतरेजा पुत्र हरीशकुमार मतरेजा नि० 111/157 हर्ष नगर कानपुर, श्रीमतीगीता सहजवानी पत्नी प्रकाशचन्द्र सहजवानी नि० एच० 20 इन्द्र पस्थ रतनलालनगर कानपुर
				673	निजी	परती	0.0576	मलिकचन्द्रकपूर पुत्र देशराज कपूर नि. 20क्यू ब्लॉक गोविन्द नगर कानपुर, मे.मालिक प्रोडक्ट्स डायरेक्टर साजन कपूर नि. 29 शक्ति नगर कानपुर
				674	सरकारी	आबादी	0.0528	मलिकचन्द्रकपूर पुत्र देशराज कपूर नि. 20क्यू ब्लॉक गोविन्द नगर कानपुर, मे.मालिक प्रोडक्ट्स डायरेक्टर साजन कपूर नि. 29 शक्ति नगर कानपुर, रोहित भाटिया पुत्र रमेशचन्द्र भाटिया नि. 111ए/10 जी.टी.रोड अशोक नगर कानपुर
				675	निजी	परती	0.0180	विजयकुमार पुत्र कैलाशचन्द्र नि. 15/74-75 बाबाघाट सिविल लाइन कानपुर
				676	निजी	परती	0.0138	विजयकुमार पुत्र कैलाशचन्द्र नि. 15/74-75 बाबाघाट सिविल लाइन कानपुर
				677	निजी	परती	0.0150	श्रीमती कुसुम पत्नी विजयकुमार चौधरी नि. 15/74-75 बाबाघाट सिविल लाइन कानपुर
				678	निजी	परती	0.0060	कैलाशनरायन गर्ग पुत्र रामनरायन गर्ग नि. सिविल लाइन कानपुर
				679	निजी	परती	0.0198	राजीव, राकेश, राजकुमार पुत्रगण कृष्णनरायन गर्ग नि. 15/78 सिविल लाइन कानपुर
				680	सरकारी	रास्ता	0.0024	रास्ता
				611	निजी	परती	0.0144	जयकिशन टहिलरमानी पुत्र मोहनलाल टहिलरमानी नि. 14एच/9दबौली कानपुर नगर, श्रीमती अनीत कौर पत्नी जसमीत सिंह नि० 120/828 रंजीतनगर कानपुर, तेजेन्द्रसिंह, गुरुमीतसिंह पुत्रगण सरदार जयमलसिंह नि० 105/672 डिप्टी पडाव कानपुर
				610	निजी	परती	0.0816	राजेश खोसला पुत्र ओ०पी० खोसला नि० 26/पी०/11 गोविन्द नगर कानपुर
				609	निजी	परती	0.0288	शिव सोम धाम पार्टनर दीपक पुत्र सोमचन्द्र गुप्ता नि० 18/176 मालरोड कानपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1775	निजी	सिंचित	0.2312	प्रेमनारायन, प्रेमकुमार, हरिशंकर पुत्रगण सूरजनारायन नि० ग्राम, मेसर्स अम्बाजी फूडर्स प्रा० लि० निदेशक ओमप्रकाशश्यामदासानी पुत्र कोडामल नि० 105/736 प्रेमनगर कानपुरनगर, जगतनारायन पुत्र देवनारायन नि० ग्राम
				1777	सरकारी	नवीन परती	0.0240	नवीन परती
				1778	निजी	नवीन परती	0.0864	बदलूप्रसाद पुत्र मुक्ताप्रसाद नि० ग्राम, देवीप्रसाद पुत्र शिवराम नि० गायत्रीनगर सचेंन्डी
				1780	सरकारी	रास्ता	0.0144	रास्ता
				1782	निजी	नवीन परती	0.1152	श्रीमती सुशीलादेवी पत्नी मुन्नीलाल नि. ग्राम व जूनियर हाई स्कूल व मुर्गीघर
				1784	सरकारी	नवीन परती	0.0210	आबादी
				1785	सरकारी	नवीन परती	0.0960	नवीन परती
				1786	निजी	नवीन परती	0.0528	राजेन्द्रसिंह पुत्र सुखदेवसिंह व श्रीमती दुर्गादेवी पत्नी राजेन्द्रसिंह नि० सिंहपुर म० ग्राम
				1480	निजी	परती	0.0320	
				906	निजी	परती/सिंचित	0.1120	सुषमासिंह पत्नी रवीन्द्रपालसिंह व कवितासिंह पत्नी रीतेन्द्रपालसिंह नि० 531 लखनपुर विकासनगर कानपुर
				905	सरकारी	चकमार्ग	0.0064	चकरोड
				903	निजी	सिंचित	0.1008	कल्लू पुत्र रज्जाक नि० ग्राम, राजेन्द्रकुमार छावडा पुत्र रवेलसिंह छावडा नि० 117एच-1/343 माडल टाउन पाण्डव नगर कानपुर
				901	निजी	सिंचित	0.1800	रामकुमार, रामधनी, रामचन्द्र पुत्रगण मेवालाल, धनीराम गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता व राजेशकुमार, नरेशकुमार, पुत्रगण रामस्वरूप शिवकान्ती पत्नी रामस्वरूप नि० ग्राम
				887	सरकारी	चकमार्ग	0.0048	चकरोड
				886	सरकारी	परती/स्कूल	0.0336	हायर सेकडरी स्कूल
				885	निजी	सिंचित	0.0624	श्रीमतीममता सिंह पत्नी श्रीधर्मवीर सिंह नि० 117एन/84 कामर्शियल एरिया काकादेव कानपुर
				883	निजी	परती	0.1104	विष्णुनारायण गर्ग, कृष्णनारायण, कैलाशनारायण गर्ग पुत्रगण रामनारायण गर्ग, प्रशान्तकुमार, अमितकुमार पुत्रगण प्रेमनारायण गर्ग नि० सिविल लाइन शहर कानपुर
				882	सरकारी	परती	0.1824	मील
				877	निजी	परती	0.0336	अभिषेक जैन पुत्र राजीव जैन नि० 23/114 लाहामंडी आगरा
				870	निजी	परती	0.0840	शोभाजैन पत्नी राजीवजैन, संजीव जैन पुत्र सुमेरजैन, सुभा जैन पत्नी संजीवजैन नि० 23/114 लाहामंडी आगरा
				869	निजी	परती/सिंचित	0.1296	महावीर पुत्र शिवचरण नि० चकरपुरभाग ग्राम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				868	निजी	सिंचित	0.0480	मातादीन, मंशीलाल, सुन्दरलाल पुत्रगण कालीचरन नि० चकरपुर भाग ग्राम
				866	सरकारी	चकमार्ग	0.0016	चकरोड
				864	निजी	परती/सिंचित	0.0120	कमलेशचन्द्र, दिनेशचन्द्र पुत्रगण दुर्गाचरन, राजेन्द्रकुमार, अरविन्द कुमार, रवीन्द्रकुमार पुत्रगण रमेशचन्द्र हरनामसिंह उर्फ जालिमसिंह पुत्र तालुकदार सिंह नि. जुगराजपुर भाग ग्राम
				863	सरकारी	रास्ता	0.0136	रास्ता
				862	निजी	परती/कृषि मंडी	0.0288	सचिव कृषि उत्पादन मंडीसमिति कानपुर
				861	निजी	परती	0.0864	कमलनाथ, श्यामनाथ महरोना पुत्रगण अमरनाथ महरोना व राम महरोना पुत्र जे.एन. महरोना नि० 23/70 फील खाना कानपुर
				605	निजी	परती	0.1680	हेमकुमार शर्मा, प्रेमकुमार शर्मा पुत्रगण शंकरलाल शर्मा नि० चकरपुर म० ग्राम
				596	सरकारी	आबादी	0.1800	आबादी
				595	सरकारी	परती/ग्राम सभा	0.0640	ग्रामसभा
				567	सरकारी	परती	0.0384	नान जेड ए
				568	सरकारी	परती	0.0032	उसर
				569	निजी	परती	0.0560	रामचरनसिंह, रामसरनसिंह पुत्रगण कंचनसिंह, जयसिंह पुत्र बलराम सिंह, रामसिंह, लखपतसिंह पुत्रगण रामबक्ससिंह व विजयसिंह पुत्र कृपालसिंह नि० चकरपुर म० ग्राम
				571	सरकारी	परती	0.0648	उसर
				563	निजी	परती	0.0320	महावीरसिंह पुत्र लौवासिंह दशरथसिंह पुत्र लौवासिंह व रामकुमार सिंह पुत्र छेदी सिंह नि० चकरपुर भाग ग्राम
				564	निजी	परती	0.0800	मेसर्स कैलाश मोटर्स पार्टनर ईश्वरचन्द्र गुप्ता पुत्र जे०एन० गुप्ता नि० 84/105ए जी०टी० रोड कानपुर
				562	निजी	परती	0.1568	मेसर्स कैलाश मोटर्स पार्टनर ईश्वरचन्द्र गुप्ता पुत्र जे०एन० गुप्ता नि० 84/105ए जी०टी० रोड कानपुर
				561	निजी	परती	0.0768	मेसर्स कैलाश आटो विल्टर्ड लि० द्वारा डायरेक्टर ईश्वरचन्द्र गुप्ता पुत्र जे०एन० गुप्ता नि० 84/105ए जी०टी० रोड कानपुर
				556	निजी	परती	0.0256	जे.के.साटो एग्री.मशीन्स कमला टावर कानपुर नगर
				741	निजी	परती/कृषि मंडी	0.0168	सचिव कृषि उत्पादन मंडीसमिति कानपुर
				740	निजी	परती/कृषि मंडी	0.0120	सचिव कृषि उत्पादन मंडीसमिति कानपुर
				739	सरकारी	परती	0.0216	सचिव कृषि उत्पादन मंडीसमिति कानपुर
				738	सरकारी	परती	0.0288	सचिव कृषि उत्पादन मंडीसमिति कानपुर
				737	सरकारी	चकमार्ग	0.0175	चकरोड
				736	निजी	परती	0.0160	सिद्धनाथ पुत्र झब्बूसिंह शिवनारायनसिंह पुत्र नवाबसिंह नि चकरपुर भाग ग्राम

H S G S / 12-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				734	निजी	परती	0.0260	शिवग्रामोद्योग सेवा संस्थान द्वारा अध्यक्ष सुदीप बाजपेई पुत्र शिवचरन बाजपेई नि० 83/33 ए.बी.एम. मार्केट अनीता बाजपेई पत्नी सुदीप बाजपेई प्रभू बाजपेई पुत्र प्रदीप बाजपेई नि० 64/260 गडरिया मोहाल सौरभ अग्रवाल पुत्र बन्दावन बिहारीलाल श्रीमती सुनीता अग्रवाल पत्नी राधकृष्ण अग्रवाल नि० 7/114 (1) स्वरूपनगर कानपुर
				733	निजी	परती	0.0220	शिवग्रामोद्योग सेवा संस्थान द्वारा अध्यक्ष सुदीप बाजपेई पुत्र शिवचरन बाजपेई नि० 83/33 ए.बी.एम. मार्केट अनीता बाजपेई पत्नी सुदीप बाजपेई प्रभू बाजपेई पुत्र प्रदीप बाजपेई नि० 64/260 गडरिया मोहाल सौरभ अग्रवाल पुत्र बन्दावन बिहारीलाल श्रीमती सुनीता अग्रवाल पत्नी राधकृष्ण अग्रवाल नि० 7/114 (1) स्वरूपनगर कानपुर
				731	निजी	परती	0.0830	शिवग्रामोद्योग सेवा संस्थान द्वारा अध्यक्ष सुदीप बाजपेई पुत्र शिवचरन बाजपेई नि० 83/33 ए.बी.एम. मार्केट अनीता बाजपेई पत्नी सुदीप बाजपेई प्रभू बाजपेई पुत्र प्रदीप बाजपेई नि० 64/260 गडरिया मोहाल सौरभ अग्रवाल पुत्र बन्दावन बिहारीलाल श्रीमती सुनीता अग्रवाल पत्नी राधकृष्ण अग्रवाल नि० 7/114 (1) स्वरूपनगर कानपुर
				730	निजी	परती	0.0400	दशरथसिंह पुत्र लौवासिंह व रामकुमारसिंह पुत्र छेदीसिंह नि० चकरपुर भाग ग्राम
				702	निजी	परती	0.0300	मेसर्स सन्टी बंटी मोटर्स प्रा० लि० द्वारा डायरेक्टर हरीकिशन पुत्र करतार सिंह नि० 123/804 फजलगंज कानपुर
				701	सरकारी	परती	0.0120	नान जेड ए
				700	निजी	परती	0.0100	मेसर्स सन्टी बंटी मोटर्स प्रा० लि० द्वारा डायरेक्टर हरीकिशन पुत्र करतार सिंह नि० 123/804 फजलगंज कानपुर
				699	निजी	परती	0.0300	मेसर्स सन्टी बंटी आर्टो मोबाइल प्रा० लि० द्वारा डायरेक्टर एच०के० ओबराय पुत्र करतारसिंह नि० 126/32 ब्लाक एस गोविन्द नगर कानपुर शिवदुलारी पत्नी इकवाल बहादुर नि० जुगराजपुर म० ग्राम
				698	सरकारी	रास्ता	0.0020	रास्ता
				555	सरकारी	चकमार्ग	0.0032	रास्ता
				554	निजी	परती/पावर ग्रिड	0.2752	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि० कानपुर
				553	निजी	परती/पावर ग्रिड	0.1632	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि० कानपुर
				552	निजी	परती	0.0480	भीमसेन पुत्र सोनाराम जितेन्दकुमार पुत्र भीमसेन नि. 127/281 यू ब्लाक निरालानगर श्रीमतीइन्दू बाला पत्नी सुन्दरश्याम नि० 126/12 डी ब्लाक गोविन्द नगर, श्री त्रपता पार्ट० मे फील्ड मार्शल ए० पुत्र नरेन्द्र कुमार 126/3 डी ब्लाक गोविन्द नगर 77/151 लाटूस रोड शहर कानपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				551	निजी	परती	0.1200	किशोरीलाल पुत्र रोशनलाल, निखार कालरा पुत्र किशनलाल कालरा नि० 124/25ए गोविन्द नगर कानपुर, सहयोग जन कल्याण समिति जरिये सदस्य प्रकाशनरायन गुप्ता पुत्र लक्ष्मीनारायन गुप्ता नि० 610/1550 रतनपुर कालोनी कानपुर नगर
				549	निजी	परती	0.3136	शहयोब जनकल्याण समिति द्वारा सचिव प्रणवीरसिंह पुत्र दीपसिंह नि. 117एच-1-243 माडल टाउन पाण्डुनगर कानपुर
				697	निजी	परती	0.0416	सन्दी बन्दी आटो मोबाइल प्रा० लि० द्वारा डायरेक्टर हरीकिशन ओबराय पुत्र करतारसिंह आबराय नि० 123/474 कालपीरोड फजलगंज कानपुर
				696	निजी	परती	0.0048	सन्तलाल सिंह पुत्र मनियासिंह नि. चकरपुर भाग ग्राम
				695	सरकारी	आबादी	0.0416	आबादी
				685	निजी	परती	0.0736	दशरथसिंह पुत्र लौवासिंह नि० चकरपुर भाग ग्राम
				योग			7.0243	
			(4) भौती प्रतापपुर	718	सरकारी	नदी	0.0736	नदी पाण्डौ
				725	निजी	परती/गौशाला	0.1950	श्रीगौशाला सोसइटी कानपुर व सरवराही लाला त्रिभुवनदास पुत्र देवचन्द्र नि० जनरलगंज कानपुर / सीलिंग भूमि
				727	निजी	परती	0.0080	राजकुमार, अजयकुमार, विजयकुमार, बृजकिशोर, श्यामकिशोर, कृष्णकुमार, राजेश व गोपीकृष्ण पुत्रगण रोशनलाल नि० म. नं. 33/223 टोपीवाली गली कानपुर
				728	निजी	परती	0.0016	राजकुमार, अजयकुमार, विजयकुमार, बृजकिशोर, श्यामकिशोर, कृष्णकुमार, राजेश व गोपीकृष्ण पुत्रगण रोशनलाल नि० म. नं. 33/223 टोपीवाली गली कानपुर
				729	निजी	परती	0.0160	राजकुमार, अजयकुमार, विजयकुमार, बृजकिशोर, श्यामकिशोर, कृष्णकुमार, राजेश व गोपीकृष्ण पुत्रगण रोशनलाल नि० म. नं. 33/223 टोपीवाली गली कानपुर
				731	निजी	परती	0.0208	गंगाप्रसाद, रामप्रसाद व शिवकुमार पुत्रगण सुखनन्दन नि० ग्राम, रामबाबू उमेशकुमार उर्फ कल्लू पुत्रगण श्रवणकुमार, विजयलक्ष्मी पत्नी श्रवणकुमार नि० 119/293 दर्शनपुरवा कानपुर, रामबाबू पुत्र रामकृष्ण नि० ग्राम, अजयकुमार पुत्र अशर्कीलाल नि० 220ब्लाक पनकी कटरा व जनककिशोरी पत्नी परमेश्वर दयाल गुप्ता नि० 122/617 शास्त्रीनगर कानपुर
				756	सरकारी	परती	0.0248	सीलिंग भूमि
				1504	सरकारी	परती/चारागाह	0.0360	चारागाह
				1503	निजी	परती/स्कूल	0.0720	रा.इन्टर का. भवन नि.हेतु
				1501	सरकारी	परती	0.0024	नान जेड ए
				1502	निजी	परती/स्कूल	0.1152	रा.इन्टर का. भवन नि.हेतु

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				763	निजी	परती/गौशाला	0.1470	श्रीगौशाला सोसइटी कानपुर व सरवराही लाला त्रिभुवनदास पुत्र देवचन्द्र नि० जनरलगंज कानपुर / सीलिंग भूमि
				797	सरकारी	परती/घास	0.2080	सीलिंग भूमि
				798	सरकारी	परती	0.0252	सीलिंग भूमि
				799	सरकारी	परती	0.0336	सीलिंग भूमि
				816	सरकारी	परती	0.2016	सीलिंग भूमि
				योग			1.1808	
			(5) नौबस्ता	347	सरकारी/निजी	आबादी	0.0440	नगर महापालिका कानपुर एवं अन्य
				356	सरकारी/निजी	आबादी	0.2100	नगर महापालिका कानपुर एवं अन्य
				374	सरकारी/निजी	आबादी	0.0560	नगर महापालिका कानपुर एवं अन्य
				375	सरकारी/निजी	आबादी	0.0480	नगर महापालिका कानपुर एवं अन्य
				376	सरकारी/निजी	आबादी	0.0592	नगर महापालिका कानपुर एवं अन्य
				377	सरकारी/निजी	आबादी	0.0320	नगर महापालिका कानपुर एवं अन्य
				395	सरकारी/निजी	आबादी	0.0048	नगर महापालिका कानपुर एवं अन्य
				397	सरकारी/निजी	आबादी	0.0240	नगर महापालिका कानपुर एवं अन्य
				398	सरकारी/निजी	आबादी	0.0352	नगर महापालिका कानपुर एवं अन्य
				399	सरकारी/निजी	आबादी	0.0192	नगर महापालिका कानपुर एवं अन्य
				400	सरकारी/निजी	आबादी	0.0240	नगर महापालिका कानपुर एवं अन्य
				402	सरकारी/निजी	आबादी	0.0144	नगर महापालिका कानपुर एवं अन्य
				404	सरकारी/निजी	आबादी	0.0276	नगर महापालिका कानपुर एवं अन्य
				566	सरकारी/निजी	आबादी	0.0170	नगर महापालिका कानपुर एवं अन्य
				570	सरकारी/निजी	आबादी	0.1000	नगर महापालिका कानपुर एवं अन्य
				571	सरकारी/निजी	आबादी	0.0640	नगर महापालिका कानपुर एवं अन्य
				382	सरकारी/निजी	आबादी	0.0380	नगर महापालिका कानपुर एवं अन्य
				383	सरकारी/निजी	आबादी	0.0280	नगर महापालिका कानपुर एवं अन्य
				योग			0.8454	
			(6) जूही कलां	1839	सरकारी/निजी	आबादी	0.0020	नान जेड ए एवं अन्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1844	सरकारी/ निजी	आबादी	0.0180	नान जेड ए एवं अन्य
				1845	सरकारी/ निजी	आबादी	0.0360	सडक पोखता सरकार एवं अन्य
				1849	सरकारी/ निजी	आबादी	0.0300	आबादी,डवलपमेन्ट बोर्ड एवं अन्य
				1850	सरकारी/ निजी	आबादी	0.0144	आबादी,डवलपमेन्ट बोर्ड एवं अन्य
				1856	सरकारी/ निजी	आबादी	0.0176	आबादी,इक्यूमेन्ट हाट एवं अन्य
				1857	सरकारी/ निजी	आबादी	0.0208	आबादी,डवलपमेन्ट बोर्ड एवं अन्य
				1861	सरकारी/ निजी	आबादी	0.0160	आबादी,इक्यूमेन्ट हाट एवं अन्य
				1862	सरकारी/ निजी	आबादी	0.0300	आबादी,डवलपमेन्ट बोर्ड एवं अन्य
				1863	सरकारी/ निजी	बंजर	0.0120	आबादी,डवलपमेन्ट बोर्ड एवं अन्य
				1864	सरकारी/ निजी	बंजर	0.0322	आबादी,इक्यूमेन्ट हाट एवं अन्य
				1866	सरकारी/ निजी	आबादी	0.0800	आबादी,इक्यूमेन्ट हाट एवं अन्य
				योग			0.3090	

[फा. सं. 17012/एनएचआई/पीआईयू/केएनपी/एलए]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2012

S.O. 2862(E).— whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.- 2908 (E) dated 28th December, 2011, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii) issued under sub-section(1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/six laning, etc), maintenance, management and operation of National Highway No.- 2, on the stretch of land from **Km 450.650 to Km 483.687** (Etawah-Chakeri Section) in the district of **Kanpur Nagar** in the State of Uttar Pradesh

And whereas the substance of the said notification has been published in "Dainik Jagran" and "Amar Ujala" both dated the 6th March-2012, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km 450.650 to km 483.687 (Etawah - Chakeri Section) of the National Highway No. 2 in the State of Uttar Pradesh								
Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hectare s)	Name of the land owner/ person Interested
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kanpur Nagar	Kanpur Nagar	(1) Gadankheda	47	Private	Irrigated	0.0510	Smt. Saroj Agarwal W/o Gokulram Agarwal
				48	Private	Parti	0.0390	Ramesh S/o Babulal Raipur pargana Akbarpur, Smt. Harsha Devi W/o Om prakash Resi-13/278 Govind nagar kanpur nagar. Rakesh Babu kushwaha S/o Ramnath kushwaha Resi-38 Part-4 panki Gangaganj kanpur nagar and Smt. Sangeeta dubey D/o Gangaprasad Resi- Binaur
				49	Government	Khalihan	0.0630	Khalihan
				54	Government	Chakmarg	0.0030	Chakmarg
				55	Private	Parti	0.0450	Naveen Parti
				65	Private	Parti	0.1036	Arunkumar Gupta, Abhay kumar Gupta S/o Sadan Mohan Gupta Resi- 784/14 W-1 Saket Nagar kanpur Nagar and Smt. Soniya Devi W/o Narendra kumar Singh Resi-Perajor tahsil-Akbarpur district-kanpur (D)
				66	Government	Chakmarg	0.0028	Chakmarg
				70	Private	Irrigated	0.0308	Radesh S/o Ramsharan Resi 104/201 Juhi whight Colony kanpur and Jitendra S/o U.C. Dixit Resi-104/201 Juhi whight colony kanpur
				72	Government	Devsthan	0.0896	Devsthan Resi-Gram
				71	Private	Irrigated	0.0196	Kamlesh Singh, Makrandi singh S/o Shahjade Singh resi-Gram, Smt. Urmiladevi W/o Late Narendra Singh Resi-Gram, Sudhashukla W/o Akhilesh kumar Shukla Resi-Tagaei, Tahsil-Akbarpur, kanpur (D) Radhakrishna Gupta (S.H.U.F), Pradeepkumar (S.H.U.F) S/o Harikrishan Gupta Resi-76/556 Kulibajar kanpur and Bachani Singh S/o Killu Singh Resi-Gram
				76	Government	Chakmarg	0.0032	Chakmarg
				77	Private	parti	0.1152	Ashutosh Gupta S/o Prakashchand Gupta and Smt. Varsha gupta W/o Ashutosh Gupta Resi-Primiya house 133/150 Transport nagar kanpur nagar
				78	Private	Navin Parti	0.0128	Shamsher Bahadur singh, Sher Bahadur Singh, Chand Bahadur Singh S/O Rampratap Singh, Smt. Vinay Praveena Singh W/O late Tej Bahadur Singh, Shobhit Singh, Ankit Singh minor age 16 year S/O Rajendra Bahadur Singh Gurdian Smt. Vitandevi mother and smt. vitandevi W/O Late Rajendra Bahadur Singh Resi-116/41 Rawatpur Kanpur
				79	Government	Navin Parti	0.0320	Naveen Parti

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				221	Private	Irrigated	0.0144	Chhedi, Lalaram S/o Ramai resi-gram, Shripai, Hemraj S/o Shivbalak & Sushiladevi W/o Shivbalak resi- Gram
				80	Private	parti	0.0176	Krishan Bhardwaj S/o Ishwardas resi-Saket Asharamwali gali-1 Shivlinkavnyu Chandigrah, Narayan Singh s/o vikram Singh resi- Gram
				86	Private	parti	0.0960	Krishan Bhardwaj S/o Ishwardas resi-Saket Asharamwali gali-1 Shivlinkavnyu Chandigrah, Narayan Singh s/o vikram Singh resi- Gram, Kamlabai alias kamla Ahuja W/o L.K. Ahuja, Smt. Saroj Khubchandani द्वारा Mukhtaram L.K. Ahuja S/o kishanchand Ahuja and smt. Pushpa sahwani W/o Dr. Ramesh Sahajwani resi-122/731 shashtrinagar Kanpur
				91	Private	Parti	0.0704	Surendpal Singh S/o Madan singh and Smt. Ramkumari W/o Madan Singh resi- 126/1, I Block govind nagar Kanpur
				109	Private	parti	0.0196	Surendpal Singh S/o Madan singh resi- 126/1, I Block govind nagar Kanpur, Suresh, Rajol S/O Chhotelal, Awdheshkumar S/O Jagroop, Smt. Kuntidevi W/O Jagroop
				110	Government	Road	0.0056	Road
				Total=			0.8342	
		(2) Pakri		258	Private	parti	0.0176	Mathura S/O Lala resi-Kanpur
				259	Private	Irrigated	0.1120	Smt. Seema Pandey W/o Ravi Pandey resi- 15/74-75 Civil lines kanpur, Nirajsingh, Vijay Bahadur Singh S/O Amarsingh resi-gram
				260	Private	parti	0.0160	Surendra, Virendra S/o Dhaniram resi- Katra majra- Binaur and Awdhesh Narayan S/o Ramnarayan Resi-117/H-2/165 Pandu Nagar Kanpur
				269	Private	Parti	0.0240	Ramsewak Singh S/o Babusingh resi- Gadankheda, Ramchand singh, Ghanshyam singh, Jaichand singh, Harishchand singh S/O Ramnarayan singh and Smt. shyama devi W/O Ramnarayan singh resi- Gadankheda
				271	Private	parti	0.1984	Hariom S/o krishnakumar resi-87/9 C Acharya Nagar Kanpur
				277	Private	Parti	0.0144	Amit kumar patel S/o Rajendra Patel resi- 49 Factory Area fajalgarj Kanpur and smt. Reema W/o Chhote Singh resi-Gram
				278	Private	Parti	0.0144	Amit kumar patel S/o Rajendra Patel resi- 49 Factory Area fajalgarj Kanpur
				279	Private	Parti	0.0960	Ramesh, Umesh S/o Babulal resi- Gram, Smt. Premilata w/o Bagmal Malhotra resi- 126/9 Block F Govind Nagar kanpur, Sharad Agarwal S/o Kailashchand Agarwal Resi- 133/185 M block Kidwai Nagar Kanpur nagar
				280	Private	Parti	0.0320	Smt. Manju W/o Kailashnath Resi-Bhisar
				178	Private	Parti	0.0600	R.K. Industrial corporation द्वारा partner Smt. Ramkumari W/o Rajnarayan Singh Chandel, Smt. Vimlesh Singh W/o Balveer Singh Chandel resi-Naholi post-Jindaura tahsil-akbarpur district-Kanpur (D) and Smt. Malti devi w/o Lalman resi- home no-58/5 Jankipuram kalyanpurkhurd kanpur Nagar
				179	Private	Parti	0.0280	Kewal Singh S/o Pansingh resi Katra Ghanshyam

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				226	Private	Parti	0.0520	Surend kumar Singh S/o Jagdish singh resi-Dharmangadpur, Vishnukumar, S/o Baburam resi-Katra, Ghanshyam, Ramkumar S/o Laxmi Narayan resi-Bhisar, Madhuri Singh w/o Rajendra Singh resi-Raipur kukhat, Smt. Usha Pandey W/o Jitendra kumar, Smt. Mamta Pandey W/o Dharmendra kumar Resi-Raipur Kukhat tahsil-Akbarpur, Keshav Singh, Rajendra singh, Devendra singh S/o Babusingh resi-Bhisar, Sitaram S/o Jagannath resi-palra, Udaynarayan Singh S/o Shiv narayan Singh Resi-Dhanjua Tehsil-Akbarpur Kanpur (dehat), Ramkaransingh, Rajendra singh S/o Jagroop Singh, Ramshankar S/o Krishankumar, Smt. Pushpadevi W/o Late Krishnakumar resi-Ishwariganj, Udaybhansingh S/o Harnam Singh, Kewal Singh S/o Pansingh Resi-Katra Ghanshyam and Rajendra kumar S/o Jagdish Singh resi- Dharmangadpur.
				294	Private	Parti	0.0048	Ramchand S/o Sohanlal Resi- Gram
				293	Private	Parti	0.0090	Smt. Ramkali w/o Om Prakash resi-86/34 Dipti Padaw kanpur Harvilas S/o Rajram resi-raipur and Sukhveer singh chandel S/o late Rajnarayan Singh Chandel resi-64/8 Vijay nagar kanpur.
				291	Private	Parti	0.0120	Girjashankar S/o Kishorilal resi Katra mu-binaur and Jangbahadur Singh S/o late Bhagwansingh resi home no- 45 barra, wordbank kanpur nagar, Smt. Anita Chauhan w/o Udaybhan Singh Chauhan resi-Katra Ghanshyam and Smt. Ashashukla w/o Maheshchand sukla resi Bhisar and Smt. shankardevi w/o Shripal Singh resi-Gram.
				283	Government	Kishan Nagar	0.0090	Kishan Nagar
				288	Government	Chakmarg	0.0012	Chakmarg
				292	Government	Nali	0.0012	Nali
				Total=			0.7020	
		(3) Sachendi	1621	Government	Canal		0.0832	Naharganga
			1620	Private	Navin Parti		0.5224	Rajeev, Rakesh, Rajkumar S/o krishna narayan Garg Resi-15/78 civil line kanpur, Satendra singh S/o shri Suresh Bahadur Singh & Smt. Kamla W/o Suresh Bahadur Singh resi-gram Nagla Gangasingh post-Ujhyan, tahsil-Bharthna distt.-Etawah, Rajni Kushwaha W/O shri Yogesh kumar kushwaha resi-bhisar, smt. Urmilasingh Bhadauriya W/o shri Balwansingh Bhadauriya resi- Bhisar Smt. Omwati W/o Rameshsingh Chandel resi-Bhisar, smt. Manjudevi W/o Satishkumar Kushwaha resi- Bhisar
			1619	Private	Navin Parti		0.0780	M/S Shri Vehicils pvt. ltd. Director Anil Jalan S/o K.L. Jalan resi-26 Sarvodya nagar kanpur
			1618/2566	Private	Irrigated		0.0432	Vivekpal keprivate ltd. through Managing Director Vivek Jain S/o Parasdas resi-128/580 K block kidwainagar kanpur
			1618	Private	Navin Parti		0.2132	Bhagwati phuds pvt. ltd. office 305 mangalam 24 hemantbasu sarti kolkata director Hariram Agarwal S/o Bhikhamsen Agarwal resi-96M block E new dali pair kolkata, Rajeev kumar S/o krishan Narayan resi-15/78 civil line city kanpur

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1598	Private	Irrigated	0.0816	Sadhana rani W/o vishnunarayan garg resi-15/78 civil line city kanpur
				1597	Private	Irrigated	0.0768	Santarani W/o vishnu narayan garg resi-15/78 civil line
				1595	Private	Irrigated	0.0144	Smt. Manjurani W/o Vishnu Narayan garg resi-15/78 civil line kanpur
				1627	Government	Canal	0.0560	Naharganj
				1626	Private	Irrigated	0.0336	Smt.Suneeta singh W/o A.K.Singh resi-81 W/Ind Juhi kanpur,Sarwan singh,Rishabh singh S/o Vipin kumar singh resi-81W-2 juhi kanpur,Ramman singh,shivbhan singh,Rajesh kumar age-17 varis gurdian mother Radha S/o Babbu Singh,Satendra singh S/o Ramprasad Singh,Udayraj singh,Shivasingh,Himanshu singh S/o Shivpratap singh Smt.Kamlesh singh W/o Shivpratap Singh resi-pakri
				1625	Private	Navin Parti	0.0476	Smt.Suneeta singh W/o A.K.Singh resi-81 W/Ind Juhi kanpur,Sarwan singh,Rishabh singh S/o Vipin kumar singh resi-81W-2 juhi kanpur,Ramman singh,shivbhan singh,Rajesh kumar age-17 varis gurdian mother Radha S/o Babbu Singh,Satendra singh S/o Ramprasad Singh,Udayraj singh,Shivasingh,Himanshu singh S/o Shivpratap singh Smt.Kamlesh singh W/o Shivpratap Singh resi-pakri
				1634	Private	Irrigated	0.0560	Smt.Suneeta singh W/o A.K.Singh resi-81 W-2/Ind Juhi kanpur,Sarwan singh,Rishabh singh S/o Vipin kumar singh resi-81W-2 Juhi kanpur
				1635	Private	Irrigated	0.0532	Vishnucharan,Vishnusaran,Ambikasharan,Adit yasharan S/o Bihari Lal resi-gram
				1636	Private	Irrigated	0.0350	Vishnucharan,Vishnusaran,Ambikasharan,Adit yasharan S/o Bihari Lal resi-gram
				1637	Government	Parti	0.0252	N.Z.A
				1649	Government	Chakmarg	0.0784	Chakroad
				1650	Private	Abadi	0.1162	Smt. Prabha Gupta
				1651	Government	Chakmarg	0.0028	Chakroad
				1653	Private	Abadi	0.0364	M/s Prabha agrotech parter Somchand gupta S/o Gayaprasad gupta resi-128/594 K block kidwai nagar kanpur
				1654	Government	Chakmarg	0.0028	Chakroad
				1655	Private	Navin Parti	0.0196	Smt. Bhagwandeve W/o Chhotelal resi-gram
				1656	Private	Navin Parti	0.0070	Smt. Hansmukhi W/o Dulari resi-gram
				1657	Private	Navin Parti	0.0112	Smt.Rameshwari W/o Jagdamba prasad resi-gram
				1689	Private	Irrigated	0.0616	Vishnucharan,Vishnusaran,Ambikasharan,Adit yasharan S/o Bihari Lal resi-gram
				1688	Private	Irrigated	0.0784	Amol Jain S/o Azad Jain resi-128 O /14 B.M. Market govind nagar kanpur Vishal jain S/o Azad jain resi-125/14 O block govind nagar kanpur
				1695	Private	Irrigated	0.0336	Mukeshchand,Sureshchand,Nareshchand,Maheshchand S/o Bhikharilal resi-gram chetan katya s/o subhashchand katya resi-133/241 Transportnagar
				1696	Private	Irrigated	0.0448	Babulal,Shantanu kumar S/o Bharosa resi-gram
				1700	Private	Irrigated	0.0420	Smt. Rajul jain W/o Vinod Jain & Smt. Meenu Jain W/o Virendra kumar jain resi- 197H-1 kidwainagar kanpur
				1702	Private	Irrigated/Navin Parti	0.0182	Omprakash,Vishnu kumar,Ramsajeewan S/o Rajaram resi-gram
				1703	Private	Navin Parti	0.0140	Vishnu kumar S/o Rajaram resi-gram
				1704	Government	Rasta	0.0028	Rasta

4545 GII/12-5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1741	Private	Irrigated	0.0616	Shashank Jaiswal S/o Satishkumar, Preshit jaiswal S/o Rajeevkumar resi-80/89 koperganj kanpur
				1742	Private	Irrigated	0.0812	Rajendrapal singh S/o Ranjeet singh resi-gram
				1745	Private	Irrigated	0.0560	Radharaman singh, Ramprakash singh, Ravindra singh S/o Rajpal Singh resi-gram
				1746	Government	Chakmarg	0.0028	Chakroad
				1747	Private	Navin Parti	0.1036	Dharmendra kumar Sharma S/o Rajkumar Sharma resi-Rahtari post-Sarauw, tehsil-Bharthana, distt. Etawah
				367	Private	Parti	0.0240	M/s Orient Achard pvt.ltd.director Atul kumar kanodiya S/o Manohar kanodiya resi-506 city center 63/2 the mall kanpur
				375	Private	Parti	0.0366	M/s Orient Achard pvt.ltd.director Atul kumar kanodiya S/o Manohar kanodiya resi-506 city center 63/2 the mall kanpur
				376	Private	Parti	0.0456	M/s Orient Achard pvt.ltd.director Manoj Dalmiya rasiterd office -506 city center the mall kanpur
				671	Private	Parti	0.0012	
				672	Private	Parti	0.0108	Smt. Sangeeta keswani W/o Kailaskumar keswani resi-2A/193 Azadnagar kanpur, Harishkumar matreja S/o Dhanraj matreja, Mohitkumar matreja S/o Harishkumar matreja resi-11/157 Harshnagar kanpur, Smt. Geeta sahajwani W/o Prakash chand sahajwani resi-H 20 Indraprath Ratanlalnagar kanpur
				673	Private	Parti	0.0576	Malikchand Kapoor S/o Deshraj Kapoor resi-20 Q block govind nagar kanpur, M/s Malik products director Sajan Kapoor resi-29 Shaktinagar kanpur
				674	Government	Abadi	0.0528	Malikchand Kapoor S/o Deshraj Kapoor resi-20 Q block govind nagar kanpur, M/s Malik products director Sajan Kapoor resi-29 Shaktinagar kanpur, Rohit Bhatiya S/o Ramesh Bhatiya resi-111 A/10 G.T. road Ashok nagar kanpur
				675	Private	Parti	0.0180	Vijay kumar S/o Kailashchand resi 15/74-75 Babaghat civil line kanpur
				676	Private	Parti	0.0138	Vijay kumar S/o Kailashchand resi 15/74-75 Babaghat civil line kanpur
				677	Private	Parti	0.0150	Smt. Kusum W/o Vijay Kumar Chaudhari resi-15/74-75 Babaghat civil line kanpur
				678	Private	Parti	0.0060	Kailash Narayan garg S/o Ramnarayan garg resi- civil line kanpur
				679	Private	Parti	0.0198	Rajeev, Rakesh, Rajkumar S/o Krishna Narayan Garg Resi-15/78 civil line kanpur
				680	Government	Rasta	0.0024	Rasta
				611	Private	Parti	0.0144	Jaikishan Tahilmani S/o Mohanlal Tahilmani resi-14H/9 Dabauli kanpur nagar, Smt. Awneet kaur W/o Jasmeet singh resi-20/828 Ranjeet nagar kanpur Tejendra singh, Gurmeet singh S/o Sardar Jaimal singh resi-105/672 dipti padav kanpur
				610	Private	Parti	0.0816	Rajesh Khosla S/o O.P. Khosla resi-26/P/11 govindnagar kanpur
				609	Private	Parti	0.0288	Shivsom dham parter Deepak S/o somchand gupta resi-18/176 mall road kanpur
				1775	Private	Irrigated	0.2312	Premnarayan, premkumar, Harishankar S/o Surajnarayan resi-gram, M/s Ambaji Friuds pvt.ltd. Director Omprakash shyamdasni S/o Kodamal resi-105/736 premnagar kanpur nagar, Jagatnarayan S/o Devnarayan resi-gram
				1777	Government	Navin Parti	0.0240	Naveen Parti

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1778	Private	Navin Parti	0.0864	Badlu prasad S/o Muktaprasad resi-gram, Deviprasad S/o Shivram resi- Gayatri nagar Sachendi
				1780	Government	Rasta	0.0144	Rasta
				1782	Private	Navin Parti	0.1152	Smt. Sushila Devi W/o Munnilal resi-gram & Junior hinh school and Murgighar
				1784	Government	Navin Parti	0.0210	Abadi
				1785	Government	Navin Parti	0.0960	Naveen Parti
				1786	Private	Navin Parti	0.0528	Rajendra singh S/o Sukhdev singh & Smt. Durgadevi W/o Rajendra singh resi- Singhpur majara gram
				1480	Private	Parti	0.0320	
				906	Private	Parti/Irrigated	0.1120	Sushma singh W/o Ravindra singh & Kavita Singh W/o Ritendra singh resi-531 Lakhanpur, Vikasnagar, kanpur
				905	Government	Chakmarg	0.0064	Chakroad
				903	Private	Irrigated	0.1008	Kallu S/o Rajjak resi- gram, Rajendra kumar Chhawda S/o Rawel singh Chhawda resi- 117H-1/343 model town Pandunagar kanpur
				901	Private	Irrigated	0.1800	Ramkumar, Ramdhani, Ramchandra S/o Mewalal, Dhaniram Gupta S/o Radheshyam gupta & Rajeshkumar, Nareshkumar S/o Ramswaroop Shivkanti W/o Ramswaroop resi- gram
				887	Government	Chakmarg	0.0048	Chakroad
				886	Government	Parti/School	0.0336	Higher secondry School
				885	Private	Irrigated	0.0624	Smt. Mamta singh W/o Shri Dharamveer singh resi- 117 N/84 Commercial area kakadev kanpur
				883	Private	Parti	0.1104	Vishnu narayan garg, krishan narayan, kailash narayan garg S/o Ramnarayan garg, Prasant kumar, Amit kumar S/o Prem narayan garg resi- civil line city kanpur
				882	Government	Parti	0.1824	Meel
				877	Private	Parti	0.0336	Abhishek Jain S/o Rajeev Jain resi-23/114 Lahamandi Agra
				870	Private	Parti	0.0840	Shobha Jain W/o Rajeev jain, Sanjeev jain S/o Sumer jain, Subhra jain w/o Sanjeev jain resi- 23/114 Lahamandi Agra
				869	Private	Parti/Irrigated	0.1296	Mahaveer S/o Shivcharan resi- Chakarpur part, gram
				868	Private	Irrigated	0.0480	Matadeen, Manshilal, Sunderlal S/o Kalicharan resi- Chakarpur part, gram
				866	Government	Chakmarg	0.0016	Chakroad
				864	Private	Parti/Irrigated	0.0120	Kamlesh chandra, Dinesh chandra S/o Durga charan, Rajendra kumar, Arvind kumar, Ravindra kumar S/o Ramesh chandra Hamam singh Alias Jalim singh S/o Talukdar Singh resi- Jugraipur part, gram
				863	Government	Chakmarg	0.0136	Rasta
				862	Private	Parti/ Krishi Mandi	0.0288	Secrectory Krishi Utpadan Mandi Samiti
				861	Private	Parti	0.0864	Kamalnath, Shyamnath Mahrona S/o Amamath Mahrona, Ram Mahrona S/o J.N. Mahrona resi- 23/70 Pheelkhana kanpur
				605	Private	Parti	0.1680	Hemkumar sharma, Premkumar Sharma S/o Shankarlal Sharma resi- Chakarpur majra, gram
				596	Government	Abadi	0.1800	Abadi
				595	Government	parti/Gramsabha	0.0640	Gramsabha
				567	Government	Parti	0.0384	
				568	Government	Parti	0.0032	Usar

USG 5112-6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				569	Private	Parti	0.0560	Ramcharan singh, Ramsaran singh S/o Kanchan singh, Jaisingh S/o Balram singh, Ramsingh, Lakhpai singh S/o Rambaksh, Vijay singh S/o Kripal singh resi- Chakarpur majara, gram
				571	Government	Parti	0.0648	Usar
				563	Private	Parti	0.0320	Mahaveer singh S/o Lauwa singh, dasrath Singh S/o Lauwa singh & Ramkumar singh S/o Chhedi singh resi Chakarpur part, gram
				564	Private	Parti	0.0800	M/s kailash Motors Parter Ishwar chandra gupta S/o J.N. gupta resi-84/ 105A G.T.road, kanpur
				562	Private	Parti	0.1568	M/s kailash Motors Parter Ishwar chandra gupta S/o J.N. gupta resi-84/ 105A G.T.road, kanpur
				561	Private	Parti	0.0768	M/s kailash Auto Viltas director Ishwar chandra gupta S/o J.N. gupta resi-84/ 105A G.T.road, kanpur
				556	Private	Parti	0.0256	J.K. Sato Agri. Machine Kamla tower kanpur nagar
				741	Private	Parti/Krishi Mandi	0.0168	Secretory Krishi Utpadan Mandi Samiti kanpur
				740	Private	Parti/Krishi Mandi	0.0120	Secretory Krishi Utpadan Mandi Samiti kanpur
				739	Government	Parti	0.0216	Secretory Krishi Utpadan Mandi Samiti kanpur
				738	Government	Parti	0.0288	Secretory Krishi Utpadan Mandi Samiti kanpur
				737	Government	Chakmarg	0.0175	Chakroad
				736	Private	Parti	0.0160	Sidhnath S/o Jhabbu singh shivnarayan singh S/o Navab singh resi- chakarpur part, gram
				734	Private	Parti	0.0260	Shivgramodhog sewa sansasthan chairman sudeep Bajpai S/o Shivcharan Bajpai resi- 83/33 A.B.M market Anita Bajpai W/o Sudeep Bajpai, Prabhu Bajpai S/o Pradeep Bajpai resi- 64/260 Gadriya muhal Saurabh Agarwal S/o Brindrawan Biharilal smt. Sunita Agarwal W/o Radhakrishan Agarwal resi-7/114-1 swaroopnagar kanpur
				733	Private	Parti	0.0220	Shivgramodhog sewa sansasthan chairman sudeep Bajpai S/o Shivcharan Bajpai resi- 83/33 A.B.M market Anita Bajpai W/o Sudeep Bajpai, Prabhu Bajpai S/o Pradeep Bajpai resi- 64/260 Gadriya muhal Saurabh Agarwal S/o Brindrawan Biharilal smt. Sunita Agarwal W/o Radhakrishan Agarwal resi-7/114-1 swaroopnagar kanpur
				731	Private	Parti	0.0830	Shivgramodhog sewa sansasthan chairman sudeep Bajpai S/o Shivcharan Bajpai resi- 83/33 A.B.M market Anita Bajpai W/o Sudeep Bajpai, Prabhu Bajpai S/o Pradeep Bajpai resi- 64/260 Gadriya muhal Saurabh Agarwal S/o Brindrawan Biharilal smt. Sunita Agarwal W/o Radhakrishan Agarwal resi-7/114-1 swaroopnagar kanpur
				730	Private	Parti	0.0400	Dashrath singh S/o Lauwa singh & Ramkumar singh S/o Chhedi singh resi Chakarpur part, gram
				702	Private	Parti	0.0300	M/s Santi Banti motors pvt.ltd. Director Harikishan S/o Kartar singh resi- 123/804 Fajalganj Kanpur
				701	Government	Parti	0.0120	
				700	Private	Parti	0.0100	M/s Santi Banti motors pvt.ltd. Director Harikishan S/o Kartar singh resi- 123/804 Fajalganj Kanpur

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				699	Private	Parti	0.0300	M/s Santi Banti auto mobile pvt.ltd. Director H.K. Obrai S/o Kartar singh resi- 126/32 block S govind nagar kanpur shivdulari W/o Ekwai singh resi- Jugrajpur, majra gram
				698	Government	Chakmarg	0.0020	Rasta
				555	Government	Chakmarg	0.0032	Rasta
				554	Private	Parti/ Powergrid	0.2752	Power grid Corporation of India ltd.kanpur
				553	Private	Parti/ Powergrid	0.1632	Power grid Corporation of India ltd.kanpur
				552	Private	Parti	0.0480	Bhimsen S/o Sonaram Jitendra kumar S/o Bhimsen resi-127/281 U block Niranagar,Smt.Indu Bala W/o Sundershyam resi-126/12 D block govindnagar,shri Tripta parter M/s Field marsai A S/o Narendra kumar resi- 126/3 D block govindnagar,77/151 Latus road city kanpur
				551	Private	Parti	0.1200	Kishorilal S/o Roshanlal,Nikhar Kalra S/o Kishanlal kalra resi-124/25A govind nagar kanpur,Shahyog Jankalyan Samiti Member Prakashnarayan Gupta S/o Laxminarayan Gupta resi- 610/1550 Ratanpur colony kanpur
				549	Private	Parti	0.3136	Shahyog Jankalyan samiti,secretory pranveer singh S/o Deepsingh resi- 117H-1/243 Model town pandunagar kanpur
				697	Private	Parti	0.0416	Santi Banti Auto Mobile pvt.ltd. Director Harikishan Obrai S/o Kartar singh Obrai resi- 123/474 kalpiroad Fajalgaon kanpur
				696	Private	Parti	0.0048	Santlal singh S/o Maniya Singh resi- Chakarapur part,gram
				695	Government	Abadi	0.0416	Abadi
				685	Private	Parti	0.0736	Dasrath singh S/o Lauwa singh resi- chakarapur part,gram
				Total=			7.0243	
			(4) Bhaunti Pratappur	718	Government	Canal/River	0.0736	Nadi Pandau
				725	Private	Parti/Gausala	0.1950	Shri Gausala Society Kanpur and Sarwarahi Lala Tribhuwandas S/o Devchand Resi Janraiganj Kanpur/Siling land
				727	Private	Parti	0.0080	Rajkumar,Ajaykumar,Vijaykumar,Brijkishor,Shyamkishor,Krishnakumar,Rajesh and Gopikrishan S/o Roshanlal Resi-Home No.33/223 Topiwali gali kanpur
				728	Private	Parti	0.0016	Rajkumar,Ajaykumar,Vijaykumar,Brijkishor,Shyamkishor,Krishnakumar,Rajesh and Gopikrishan S/o Roshanlal Resi-Home No.33/223 Topiwali gali kanpur
				729	Private	Parti	0.0160	Rajkumar,Ajaykumar,Vijaykumar,Brijkishor,Shyamkishor,Krishnakumar,Rajesh and Gopikrishan S/o Roshanlal Resi-Home No.33/223 Topiwali gali kanpur
				731	Private	Parti	0.0208	Gangaprasad,Ramprasad,Shivkumar S/o Sukhnadan Resi-Gram,Rambabu,Umeshkumar alias Kallu S/o Shrawankumar,Vijaylaxmi W/o Shrawankumar Resi-119/293 Darshanpurwa kanpur,Rambabu S/o Ramkrishna Resi-Gram,Ajaykumar S/o Asharfilal resi-220Block panki katra and Janakkishori W/o Parmeshwar dayal gupta resi- 122/617 shastrinagar kanpur
				756	Government	Parti	0.0248	Siling land
				1504	Government	Parti/Charagah	0.0360	Charagah
				1503	Private	Parti/School	0.0720	Government inter collage Bhawan Nirman hetu.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1501	Government	Parti	0.0024	N.Z.A
				1502	Private	Parti/School	0.1152	Government Inter collage Bhawan Nirman hetu.
				763	Private	Parti/Gausala	0.1470	Shri Gausala Society Kanpur and Sarwarahi Lala Tribhuwandas S/o Devchand Resi Janraiganj Kanpur/Siling land
				797	Government	Parti/Charagah	0.2080	Siling land
				798	Government	Parti	0.0252	Siling land
				799	Government	Parti	0.0336	Siling land
				816	Government	Parti	0.2016	Siling land
				Total=			1.1808	
			(5) Naubasta	347	Govt./Pvt.	Abadi	0.0440	Nagar Mahapalika Kanpur and Others
				356	Govt./Pvt.	Abadi	0.2100	Nagar Mahapalika Kanpur and Others
				374	Govt./Pvt.	Abadi	0.0560	Nagar Mahapalika Kanpur and Others
				375	Govt./Pvt.	Abadi	0.0480	Nagar Mahapalika Kanpur and Others
				376	Govt./Pvt.	Abadi	0.0592	Nagar Mahapalika Kanpur and Others
				377	Govt./Pvt.	Abadi	0.0320	Nagar Mahapalika Kanpur and Others
				395	Govt./Pvt.	Abadi	0.0048	Nagar Mahapalika Kanpur and Others
				397	Govt./Pvt.	Abadi	0.0240	Nagar Mahapalika Kanpur and Others
				398	Govt./Pvt.	Abadi	0.0352	Nagar Mahapalika Kanpur and Others
				399	Govt./Pvt.	Abadi	0.0192	Nagar Mahapalika Kanpur and Others
				400	Govt./Pvt.	Abadi	0.0240	Nagar Mahapalika Kanpur and Others
				402	Govt./Pvt.	Abadi	0.0144	Nagar Mahapalika Kanpur and Others
				404	Govt./Pvt.	Abadi	0.0276	Nagar Mahapalika Kanpur and Others
				566	Govt./Pvt.	Abadi	0.0170	Nagar Mahapalika Kanpur and Others
				570	Govt./Pvt.	Abadi	0.1000	Nagar Mahapalika Kanpur and Others
				571	Govt./Pvt.	Abadi	0.0640	Nagar Mahapalika Kanpur and Others
				382	Govt./Pvt.	Abadi	0.0380	Nagar Mahapalika Kanpur and Others
				383	Govt./Pvt.	Abadi	0.0280	Nagar Mahapalika Kanpur and Others
				Total=			0.8454	
			(6) J. & Hi Kalan	1839	Govt./Pvt.	Abadi	0.0020	N.Z.A and Others
				1844	Govt./Pvt.	Abadi	0.0180	N.Z.A and Others
				1845	Govt./Pvt.	Abadi	0.0360	Road Pukhta government and Others
				1849	Govt./Pvt.	Abadi	0.0300	Abadi,development board and Others
				1850	Govt./Pvt.	Abadi	0.0144	Abadi,development board and Others
				1856	Govt./Pvt.	Abadi	0.0176	Abadi,Iquiment hot and Others
				1857	Govt./Pvt.	Abadi	0.0208	Abadi,development board and Others
				1861	Govt./Pvt.	Abadi	0.0160	Abadi,Iquiment hot and Others
				1862	Govt./Pvt.	Abadi	0.0300	Abadi,development board and Others
				1863	Govt./Pvt.	Banjar	0.0120	Abadi,development board and Others
				1864	Govt./Pvt.	Banjar	0.0322	Abadi,Iquiment hot and Others
				1866	Govt./Pvt.	Abadi	0.0800	Abadi,Iquiment hot and Others
				Total=			0.3090	

[F. No. 17012/NHAI/PIU/KNP/LA]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.